

Self Assessment Model Paper-3 (2025-2026)

10th Class - Hindi

I. खण्ड अ: प्रश्न-1 से प्रश्न 5 तक उत्तर 5X1=5M

II. खण्ड आ: 6

5M

1	यह तो कोई यान होगा।
2	ये किताबें बहुत रोचक हैं।
3	तत्पुरुष समास
4	नि: + धन
5	इत

अ	6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना और बाल मजदूरी को जड़ से समाप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।
आ	अपराध (B)
इ	इस दशक के अंत तक (B)
ई	भारतीय संसद (C)

II. खण्ड आ: 7

5M

अ	नदियों की यात्रा सागर में विलीन होकर समाप्त होती है।
आ	पर्वतों में (A)
इ	नदियाँ (B)
ई	विशाल (B)

III. खण्ड इ : नीचे दिये गये प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर चार वाक्यों में लिखिए।

3X4=12M

8) टेसी थॉमस के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है?

जवाब) टेसी थॉमस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्र में सफल निर्देशिका है। बचपन से कुछ अलग बनने की रुचि थी। उनके जीवन से हमें ये संदेश मिलते हैं कि:-

- * जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े।
- * मेहनत करें और लक्ष्य प्राप्त करने तक न रुके।
- * जो विषय पसंद है उसमें जी जान लगा दे।
- * कमर कसकर तैयारी करे।
- * सफलता अवश्य कदम को छू लेगी।

9) 'जल ही जीवन है।' शीर्षक से आपका क्या अभिप्राय है?

जवाब) पृथ्वी पर हर प्राणी के लिए जल की आवश्यकता है। हम सभी जल पर ही निर्भर हैं। जल है तो कल है। जल में समृद्धि है। इसकी आवश्यकता समझाते हुए दी गई शीर्षक उचित ही है।

10) कलाम के विचार में आदर्श छात्र के गुण क्या है?

जवाब) कलाम जी के अनुसार आदर्श छात्र के गुण :-

- * कम से कम पाँच निरक्षर महिलाओं को शिक्षित करना।
- * ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त जीवन बिताना।
- * पढ़ते हुए कक्षा में आगे बढ़ाना है।
- * खूब परिश्रम करना है।
- * जीवन में एक लक्ष्य बनाना है उसको पाने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं अनुभव को प्राप्त करना है।
- * निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए बढ़िया काम करना है।
- * नैतिक मूल्यों को ग्रहण करना है।
- * गरीब बच्चों को छुट्टियों में पढ़ाना है।
- * अपने प्रति ईमानदारी से रहना है। दूसरों के प्रति आदर भाव रखनी हैं।
- * अधिक से अधिक पौधे लगानी है।
- * छात्र को पढ़ने में रुचि रखते हुए माता-पिता को शिक्षित करनी है।

.....उपर्युक्त में से किन्हीं चार

11) राजा कुमार वर्मा के राज्य में अकाल की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई होगी?

जवाब) हरित नगर का राजा कुमार वर्मा था। उसके शासन काल में राज्य हरा-भरा रहता था। लेकिन एक बार हरित नगर में अकाल पड़ा। राज्य में सारी फसलें सूख गयीं। तालाब, गड्ढे सूख गये। केवल दो ही जीव नदियाँ बची थीं। जो छोटी-छोटी नहरें बनकर रह गयीं। इसीलिए अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई।

12) अकाल की समस्या के निवारण के लिए राजा ने क्या-क्या उपाय सोचे होंगे?

जवाब) अकाल की समस्या के निवारण के लिए राजा ने निम्न उपाय सोचे होंगे-

- * राज्य के कई बुद्धिमानों, हाजिर जवाबदारों और विद्वानों को बुलाया होगा।
- * राज भंडार का अनाज प्रजा में बाँट दिया होगा।
- * अडोस-पडोस के राज्यों से अनाज उधार लिया होगा।
- * अडोस-पडोस के किसी खुशहाल राज्य के राजा से भेंटकर उसके शासन नियमों का पता लगाने की कोशिश की होगी।

IV. खण्ड ई : निम्न लिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 8 पंक्तियों में लिखिए।

8M

13) अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए?

जवाब)

1. अच्छे नागरिक को अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए।
2. उसमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए।
3. वह समय पर कर (Tax) चुकाने वाला होना चाहिए।
4. उसे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए।
5. दूसरों के विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए।
6. स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
7. उसमें दूसरों की मदद करने और समाजसेवा की भावना होनी चाहिए।
8. वह देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर उसकी रक्षा करनी है।
9. ऐसे नागरिक राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

14) जल स्रोतों के रख-रखाव के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? "जल ही जीवन" पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए।

जवाब)

जल स्रोतों के रख-रखाव के बारे में मैं निम्न सुझाव दे रहा हूँ:-

- * पेय जल एवं स्वच्छ जल को दूषित नहीं करना है।
- * गंदगी एवं कूड़े-कचरे को नदी-नालों में न फेंकना है।
- * कल-कारखानों के कचरे को नदी या नालों में मिलाने से रोकना है।
- * वर्षा के पानी को इकट्ठा करने का प्रयास करना है।
- * नदियों पर बाँध बनाकर पानी को बचाना है।

Prepared by

School Assistant (Hindi)

Date:

Signature of the Gazetted Head Master